

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- इंडोनेशिया और मलेशिया रिकॉर्ड उच्च कीमतों के बावजूद बायोडीजल के लिए 30% पॉम तेल के मिश्रण की अनिवार्यता के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- भारत सरकार ने बैटरी सेल पीएलआई योजना के लिए मंजूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है।
- केंद्र का वित्त वर्ष-23 में खाद्य सब्सिडी खर्च 26,000 करोड़ रुपये कम हो सकता है।
- मसाला बोर्ड ने इलायची पूलिंग पंजीकृत नीलामियों पर 65 टन की सीमा हटा दी, जबकि बोर्ड ने पुनः पूलिंग को कम करने के लिए डीलरों द्वारा पूलिंग को 25 टन तक सीमित कर दिया।
- भारत को मार्च में रूसी मूल के लगभग 30,000-40,000 मिलियन टन सूरजमुखी तेल प्राप्त होने की उम्मीद है और सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता यूक्रेन से आयात अभी भी युद्ध के कारण बंदरगाहों पर अटका हुआ है।
- भारत छह साल में पहली बार चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए विचार कर रहा है और घरेलू कीमतों में वृद्धि को रोकने के प्रयास में निर्यात को लगभग 80 लाख टन तक

सीमित कर सकता है।

- वैश्विक निकल बाजार में जनवरी में 6,000 टन निकल सरप्लस रहा है जबकि पिछले साल की समान अवधि में 5,300 टन की कमी थी: आईएनएसजी।
- अंतर्राष्ट्रीय एल्युमीनियम संस्थान के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर प्राथमिक एल्युमीनियम का उत्पादन फरवरी में कम होकर 5.114 मिलियन टन रह गया, जो 2021 में समान अवधि में 5.236 मिलियन टन था।
- ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने रूस को एल्युमिना और एल्युमीनियम अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।
- कपास की कीमतें 130 डॉलर/पाउंड से ऊपर 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई क्योंकि टेक्सास के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में जनवरी की शुरुआत से बहुत कम बारिश हुई है, जो कि सभी अमेरिकी कपास उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.03.22	24.03.22	बदलाव (%)
जौ	2032.00	2329.00	14.62%
धान	4076.00	4313.00	5.81%
कॉटनऑयलसीडकेक	3129.00	3286.00	5.02%
कपास	2045.00	2143.50	4.82%
जीरा	20815.00	21765.00	4.56%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.03.22	24.03.22	बदलाव (%)
कच्चा तेल	7712.00	8666.00	12.37%
नेचुरल गैस	378.50	418.60	10.59%
एल्युमीनियम	273.45	288.75	5.60%
जिंक	317.80	333.85	5.05%
कॉटन	39270.00	40950.00	4.28%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.03.22	24.03.22	बदलाव (%)
रिफाईंड सोया तेल	1560.70	1528.00	-2.10%
ग्वारेक्स	7792.00	7747.00	-0.58%
सीसेम सीड	11845.00	11790.00	-0.46%
ग्वारसीड	6160.00	6138.00	-0.36%
गेहूं	2259.00	2257.00	-0.09%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.03.22	24.03.22	बदलाव (%)
निकल	2670.80	2497.80	-6.48%
लेड	185.30	184.80	-0.27%

## साप्ताहिक समीक्षा

पिछले सप्ताह कमोडिटी की कीमतों में रिकवरी जारी रही जबकि सीआरबी इंडेक्स 325 के करीब कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में निचले स्तर से रिकवरी हुई और 99 के स्तर तक पहुंचने की कोशिश की। डॉलर के मजबूत होने के बावजूद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। कमोडिटी मुद्रा डॉलर अपने हाल के कुछ बढ़त से पीछे हट गया और जापानी येन 2015 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। इसके अलावा, फेड नीति निर्माताओं ने बुधवार को संकेत दिया कि वे मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अधिक आक्रामक कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें मई में होने वाली अगली नीतिगत बैठक में ब्याज दरों में आधा फीसदी की बढ़ोतरी संभव है। बुलियन काउंटर ने डॉलर इंडेक्स में तेजी को नजरअंदाज किया और अमेरिका द्वारा रूस के खिलाफ अधिक प्रतिबंधों के डर से बढ़ गया। यह नेचुरल गैस सहित ऊर्जा काउंटर के लिए एक अच्छा सप्ताह था। कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम (सीपीसी) पाइपलाइन के माध्यम से रूसी और कजाक कच्चे तेल के निर्यात में रुकावट, जिससे पहले से कम आपूर्ति वाले बाजार में वैश्विक आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई, के कारण तेल की कीमतें बुधवार को 5% उछलकर 121 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया में कच्चे तेल के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक रूस पर भारी प्रतिबंधों के कारण बाजार में आपूर्ति कम होने की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में मामूली वृद्धि की उम्मीदों की तुलना में भंडार 2.5 मिलियन बैरल कम हो गया। ठंडे मौसम के पूर्वानुमान और रिकॉर्ड विदेशी मांग के कारण अमेरिकी नेचुरल गैस वायदा की कीमतें लगभग 5.2 डॉलर प्रति एमबीटीयू के स्तर तक पहुंच गईं, जो 26 नवंबर के बाद से नहीं देखा गया था। यूरोपीय गैस की कीमतें अमेरिका की तुलना में सात गुना अधिक हैं, जबकि यह क्षेत्र रूस से ऊर्जा आयात को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, और कच्चा तेल 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है, जिससे ऊर्जा बाजार पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। रूस द्वारा शत्रु देशों को गैस की बिक्री के लिए रूबल में भुगतान की मांग करने के बाद बेस मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है जिससे यूरोपीय गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और अधिक स्मेल्टर बंद होने की चिंता बढ़ रही है। बेस मेटल में लेड और निकल की कीमतों में गिरावट देखी गई, जबकि बाकी में तेजी रही। एलएमई ने कहा है कि कुछ सदस्यों के मांग के बावजूद रूसी उत्पादकों से प्राप्त मेटल, जैसे नोरिल्स्क निकल से निकल और तांबा या रूस से एल्युमीनियम, पर अपने सिस्टम पर प्रतिबंध लगाने की उसकी कोई योजना नहीं है। रूस को एल्युमिना के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के ऑस्ट्रेलिया के फैंसले से दिग्गज रूसी एल्युमिनियम कंपनी रूसल पर कच्चे माल का दबाव अधिक बढ़ गया है। जर्मन एल्युमीनियम उत्पादक ट्रिमेट आने वाले हफ्तों में ऊर्जा-गहन उत्पादन प्रक्रिया के लिए भारी लागत के बीच एसेन में अपने मुख्य कारखाने में उत्पादन में आधा कटौती करेगा।

कृषि कमोडिटीज में, मसाला काउंटरों में निचले स्तर से खरीदारी देखी गई क्योंकि हाल ही में कीमतों गिरावट ने इसे नयी खरीद के लिए अधिक आकर्षक बना दिया। नए सीजन की हल्दी बाजार में दस्तक दे रही है और इस सीजन में निर्यात सामान्य है। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 में जीरा निर्यात 19% बढ़कर 14725 टन हो गया, जबकि दिसंबर 2021 में 12385 टन था। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण रोमानिया और बुल्गारिया से धनिया की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है जिससे भारतीय बाजार में धनिया की कीमतों को मदद मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी को देखते हुए कॉटन वायदा (मार्च) की कीमतें बुधवार को अब तक के उच्चतम स्तर 41330 पर पहुंच गईं।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	18.03.22	24.03.22	(%)
जौ	जयपुर	2,382.50	3,084.50	29.46
चना	दिल्ली	5,090.15	5,100.00	0.19
धनिया	कोटा	10,445.00	10,571.90	1.21
कूड पॉम ऑयल	कांडला	1,502.10	1,453.20	-3.26
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,144.50	1,162.20	1.55
ग्वारसीड	जोधपुर	6,085.50	6,133.35	0.79
ग्वारगम	जोधपुर	11,258.35	11,383.35	1.11
जीरा	ऊंझा	20,668.75	21,300.00	3.05
सरसों	जयपुर	6,977.80	7,193.25	3.09
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1,530.00	1,520.00	-0.65
सोयाबीन	इंदौर	7,668.00	7,737.00	0.90
हल्दी	निजामाबाद	8,252.95	8,200.00	-0.64
गेहूं	दिल्ली	2,274.50	2,298.60	1.06
कॉटन	कडी	38,962.30	40,516.05	3.99
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	3,292.85	3,356.85	1.94

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	18.03.22	24.03.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	3,381.00	3,623.50	7.17
तांबा	LME	नकद	10,331.00	10,349.50	0.18
लेड	LME	नकद	2,252.50	2,308.50	2.49
निकल	LME	नकद	36,915.00	37,235.00	0.87
जिंक	LME	नकद	3,826.00	4,039.00	5.57
सोना	COMEX	अप्रैल	1,929.30	1,962.20	1.71
चांदी	COMEX	मई	25.09	25.92	3.31
लाइट कूड	NYMEX	अप्रैल	103.09	112.34	8.97
नेचुरल गैस	NYMEX	अप्रैल	4.86	5.401	11.06

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	18.03.22	24.03.22	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	मई	16.68	17.00	1.92
सोया तेल	CBOT	मई	72.29	74.29	2.77
कॉटन	ICE	मई	126.86	130.90	3.18
सीपीओ	BMD	जून	5,629.00	5,943.00	5.58

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	18.03.22 क्वांटिटी	24.03.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	4180	4200	20
कैस्टर सीड	मी.टन	3805	3217	-588
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	85959	82878	-3081
ग्वारगम	मी.टन	22041	21215	-826
ग्वारसीड	मी.टन	31248	32486	1238
मक्का	मी.टन	1089	1089	0
जीरा	मी.टन	5274	5428	154
सोयाबीन	मी.टन	1665	1665	0
हल्दी	मी.टन	960	1700	740
स्वील लांग	मी.टन	82	82	0

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	19.03.22 क्वांटिटी	24.03.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	3,008	5,103	2095
तांबा	मी.टन	1,864,892	1,838,501	-26391
सोना	किग्रा	683	684	1
सोना गिनी	किग्रा	14,208	14,208	0
सोना मिनी	किग्रा	858,200	995,200	137000
लेड	किग्रा	2,868	2,984	116
निकल	किग्रा	428,849	434,568	5719
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	61,278	57,584	-3694
जिंक	मी.टन	922	833	-90

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 18.03.22	स्टॉक की स्थिति 24.03.22	अंतर
एल्युमीनियम	724,700	689,575	-35,125
तांबा	77,600	79,975	2,375
निकल	74,274	73,242	-1,032
लेड	38,675	38,725	50
जिंक	144,025	143,175	-850



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अप्रैल	21765.00	03.01.22	तेजी	17500.00	21150.00	-	21000.00
NCDEX	ग्वारसीड	अप्रैल	6138.00	17.03.22	मंदी	6200.00	-	6450.00	6500.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अप्रैल	3286.00	15.12.21	तेजी	2800.00	3120.00	-	3100.00
MCX	रबर	अप्रैल	17275.00	14.12.21	मंदी	17800.00	-	17500.00	17550.00
MCX	मेंथा ऑयल	अप्रैल	1055.60	10.01.22	मंदी	1030.00	-	1095.00	1100.00
MCX	बुलडेक्स	अप्रैल	15385.00	07.02.22	तेजी	14100.00	14850.00	-	14800.00
MCX	चांदी	मई	69320.00	07.02.22	तेजी	61900.00	67150.00	-	67000.00
MCX	सोना	जून	52603.00	07.02.22	तेजी	48200.00	51200.00	-	51000.00
MCX	मेटलडेक्स	अप्रैल	21867.00	16.12.21	तेजी	16700.00	21450.00	-	21400.00
MCX	तांबा	अप्रैल	822.45	16.12.21	तेजी	740.00	785.00	-	780.00
MCX	लेड	अप्रैल	184.80	16.12.21	तेजी	186.00	180.50	-	180.00
MCX	जिंक	अप्रैल	333.85	16.12.21	तेजी	275.00	312.00	-	310.00
MCX	निकल	अप्रैल	2497.80	16.12.21	तेजी	1530.00	2250.00	-	2200.00
MCX	एल्युमिनियम	अप्रैल	288.75	16.12.21	तेजी	218.00	263.00	-	260.00
MCX	एनर्जीडेक्स	अप्रैल	8731.00	04.01.22	तेजी	5700.00	8100.00	-	8000.00
MCX	कच्चा तेल	अप्रैल	8666.00	04.01.22	तेजी	5800.00	7200.00	-	7000.00
MCX	नेचुरल गैस	अप्रैल	418.60	15.02.22	तेजी	320.00	375.00	-	370.00

\*24/03/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पंजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।

2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### जिंक (अप्रैल) एमसीएक्स



### एमसीएक्स में जिंक (अप्रैल)

एमसीएक्स में जिंक(अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 24 मार्च 2022 को 333.70 रु पर बंद हुआ। 08 मार्च 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 376.65 रु के उच्च स्तर पर था। 27 जनवरी 2022 को 204.40 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 61.89 है। 318.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 350.00 रु के टारगेट के लिए 328.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### धनिया (अप्रैल) एनसीडीईएक्स



### एनसीडीईएक्स में धनिया (अप्रैल)

एनसीडीईएक्स में धनिया(अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 24 मार्च 2022 को 10884.00 रु पर बंद हुआ। 24 फरवरी 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 11300.00 रु के उच्च स्तर पर था जबकि 07 जनवरी 2021 को 5622.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 51.347 है। 10400.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 11200.00 रु के टारगेट के लिए 10600.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### तांबा (अप्रैल) एमसीएक्स



### एमसीएक्स में तांबा (अप्रैल)

एमसीएक्स में तांबा (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 24 मार्च 2022 को 812.15 रु पर बंद हुआ। 07 मार्च 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 888.35 रु के उच्च स्तर पर था। 01 फरवरी 2021 को 585.70 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 59.32 है। 790.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 860.00 रु के टारगेट के लिए 810.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।





## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतों में पिछले हफ्ते रिकवरी दर्ज की गई क्योंकि निर्यात मांग की उम्मीद के कारण हाजिर बाजार में मांग में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा, मुख्य हाजिर बाजारों में आवक स्थिर रही है। अब कीमतें 8450 पर अहम सपोर्ट के साथ 9500 रू तक बढ़त दर्ज कर सकती है। वर्तमान में, कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक हैं। नए सीजन की हल्दी बाजार में आ रही है, लेकिन पिछले एक महीने में कीमतों में गिरावट के कारण आवक धीमी हो गई है। अधिक कीमतों के कारण इस सीजन में निर्यात सामान्य है। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 में हल्दी का निर्यात दिसंबर 2021 के 14275 टन की तुलना में 25% घटकर 10,600 टन रह गया है। वित्त वर्ष 2021/22 के पहले 10 महीनों (अप्रैल-जनवरी) में, निर्यात पिछले साल की तुलना में 20.1% घटकर 1.27 लाख टन रह गया है लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 9.2% अधिक है।

घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी होने के कारण जीरा वायदा (अप्रैल) की कीमतों में पिछले सप्ताह सकारात्मक कारोबार हुआ और इस सप्ताह में भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है। कीमतों के 20310 पर सपोर्ट के साथ 22600 तक बढ़ने की संभावना है। नए सीजन के जीरे की अधिकतम आवक का सीजन शुरू हो गया है लेकिन आवक पिछले साल की तुलना में कम दर्ज की गई है। उझा में पुरानी और नई फसल की आवक पिछले वर्ष लगभग 40,000 बैग की तुलना में प्रतिदिन लगभग 28000 बैग (1 बैग=55 किग्रा) रह गई है। नए साल में, जीरा की कीमतों में 33% से अधिक की वृद्धि हुई है और वर्तमान में कम उत्पादन की खबरों पर कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 46% अधिक हैं। 2021/22 में, गुजरात में जीरा का रकबा केवल 3.07 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 4.69 लाख हेक्टेयर था और दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्पादन पिछले वर्ष के 4 लाख टन की तुलना में 41% घटकर 2.37 लाख टन होने की उम्मीद है। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 में जीरा निर्यात 19% बढ़कर 14725 टन हो गया, जबकि दिसंबर 2021 में 12385 टन था। लेकिन अप्रैल-जनवरी में जीरा का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 23% घटकर 1.88 लाख टन रह गया है जबकि पिछले साल 2.44 लाख टन हुआ था।

मुख्य रूप से हाजिर बाजार में आवक कम होने के कारण धनिया वायदा (अप्रैल) की कीमतें 10200 के स्तर पर सपोर्ट के साथ रिकवरी कर रही है और 11300 तक कारोबार करने की संभावना है। कम उत्पादन की उम्मीद के कारण वर्तमान में कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 56% अधिक और जनवरी के बाद से 22.5% अधिक हैं जबकि निर्यात कम हो रहा है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण रोमानिया और बुल्गारिया से धनिया की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे भारतीय बाजार का मदद मिलेगा। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 में धनिया का निर्यात दिसंबर 2021 में 4630 टन की तुलना में 15% कम होकर 3590 टन रह गया है, जबकि वित्त वर्ष 2021/22 (अप्रैल-जनवरी) में निर्यात पिछले साल के 48,350 टन से 15% घटकर 41,100 टन हुआ है, लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 11% अधिक है।

### अन्य कमोडिटीज

अमेरिका में सूखे की स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होने से कॉटन वायदा (अप्रैल) की कीमतों के पिछले सप्ताह 42280 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद कीमतों में तेजी जारी है। अब यदि कीमतें 42500 के रेजिस्टेंस स्तर को पार करती है तो 44000 के स्तर तक बढ़ सकती है। उत्पादन में कमी की आशंका, धीमी आवक, बेहतर घरेलू और निर्यात मांग के कारण वर्तमान समय में कपास की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 99.65% अधिक हैं और नए साल में लगभग 19.2% बढ़ी है। देश से कपड़ा उत्पादों के अधिक निर्यात के कारण घरेलू मांग बढ़ रही है। दूसरे अग्रिम अनुमान में, सरकार ने पहले अनुमान के 362 लाख गांठ से देश में कपास उत्पादन को घटाकर 340 लाख गांठ कर दिया है जबकि धागाँ और कपड़ा उत्पादों के उच्च निर्यात के कारण घरेलू मांग बढ़ रही है।

आपूर्ति और मांग की संतुलित स्थिति के कारण ग्वारसोड वायदा (अप्रैल) का कारोबार पिछले सप्ताह 6100-6200 के बेहद सीमित दायरे में हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण देश से ग्वारगम का निर्यात बढ़ रहा है। अब तत्काल सपोर्ट 6050 पर है और यदि कीमतें 6300 के रेजिस्टेंस स्तर को पार करती है तो 6600 के स्तर तक कारोबार कर सकती है। वर्तमान में, पिछले 5 वर्षों में सबसे कम उत्पादन, कई वर्षों में कम स्टॉक और अच्छी निर्यात मांग की संभावना से कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 63.1% अधिक हैं। तेल-रिग की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 248 अधिक है। एपीडा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 में ग्वारगम का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 5% बढ़कर 22300 टन हो गया है, जबकि 2021/22 (अप्रैल-जनवरी) में निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 38.4% बढ़कर 2.64 लाख टन हुआ है।

अरंडी के डेरिवेटिव की अच्छी निर्यात मांग के कारण अरंडी वायदा (अप्रैल) की कीमतों में तेजी बरकरार है। कीमतों को रेजिस्टेंस अब तक के उच्चतम स्तर 7430 के स्तर पर है। कीमतों में अभी भी तेजी का रुझान है और यदि कीमतें रेजिस्टेंस स्तर को पार करती है तो 7600 के स्तर तक बढ़ सकती है। अधिक मांग और कम उत्पादन अनुमान के कारण वर्तमान में अरंडी की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 63% अधिक हैं, जबकि इस वर्ष कीमतों में 24% से अधिक की वृद्धि हुई है। एसईए के आंकड़ों के मुताबिक, 2021-22 में भारत में अरंडी का उत्पादन 17.95 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 2020-21 में 17.89 लाख टन था। अप्रैल-जनवरी के दौरान अरंडी के तेल का निर्यात पिछले साल के निर्यात 5.06 लाख टन के बराबर है।

मेंथा ऑयल (अप्रैल) पिछले सप्ताह 9 महीने के उच्च स्तर 1107 पर पहुंच गई, लेकिन कारोबारियों द्वारा मुनाफावसुली के कारण उच्च स्तर पर बरकरार नहीं रह सकी और 1050 के स्तर तक फिसल गई। कीमतों तत्काल रेजिस्टेंस 1100 के स्तर पर है और सपोर्ट 1032 पर है। कीमतों में तेजी का रुझान है और आने वाले हफ्तों में 1100 के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। इस सीजन में मेंथा का रकबा कम रहने की उम्मीद है क्योंकि उत्तर प्रदेश को किसानों के इस सीजन में कम रकबे में बुवाई करने की संभावना है।

### सर्पफा

मार्च, 2022 में, सोने का कारोबार 1895.2 डॉलर-2078.8 डॉलर के व्यापक दायरे में हुआ, जबकि चांदी का कारोबार 24.55 डॉलर से 27.35 डॉलर के बीच हुआ है। घरेलू बाजार में मार्च महीने में सोने और चांदी के कारोबार का दायरा क्रमशः 51028-55558 और 67117-73078 रहा है। पिछले हफ्ते फंड के आक्रामक संकेतों के बावजूद डॉलर सूचकांक और ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी के बावजूद दोनों धातुओं की कीमतों में उछाल दर्ज की गई। रूस द्वारा शत्रु देशों को गैस की बिक्री के लिए रूबल में भुगतान की मांग करने के बाद प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है। यूक्रेन में युद्ध को लेकर अनिश्चितता के कारण भी सुरक्षित निवेश के रूप में और मुद्रास्फीति के मुकाबले बचाव के रूप में बुलियन की मांग में बढ़ोतरी हुई। मुद्रास्फीति का बढ़ता दबाव सोने की कीमतों को मदद करने के लिए मुख्य मौलिक कारक बना हुआ है। फेडरल रिजर्व ने 16 मार्च को उधार लेने की लागत में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर दी है, और अधिक आक्रामक दृष्टिकोण का संकेत दिया। सोने, जो कोई ब्याज नहीं देता है, की मांग ब्याज दरों में वृद्धि होने पर कम हो जाती है, लेकिन यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और मौजूदा मुद्रास्फीति दबावों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। श्रम विभाग द्वारा कल जारी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार बाजार में मजबूती फेडरल रिजर्व को मई में अपनी अगली नीति बैठक में ब्याज दरों को आधा प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। बुलियन ईटीएफ के ऊंचे होने के साथ, यदि निकट अवधि में मुद्रास्फीति के कारण मंदी अधिक बढ़ जाती है तो सोना अधिक निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। दुनिया में सोने के सबसे बड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग फरवरी 2021 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। सोने की कीमतें 51000-53500 में जबकि चांदी की कीमतें 68000-71000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

कच्चे तेल की कीमतें उच्च अस्थिरता के साथ कारोबार करना जारी रख सकती हैं क्योंकि रूस पर प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति संकट की बढ़ती आशंका से कीमतों को मदद मिलती रह सकती है, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव में किसी भी कमी और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के अपने भंडारण से समन्वित रूप से तेल जारी की किसी भी संभावना से कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। कजाकिस्तान ने कहा कि उसे उम्मीद है कि एक बड़े तूपान से क्षतिग्रस्त कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम टर्मिनल एक महीने के भीतर कच्चे तेल का निर्यात करना फिर से शुरू कर देगा, लेकिन उसने कहा कि यह कैस्पियन सागर में टैंकरों और रूस के समारा और चीन जाने वाली पाइपलाइनों की ओर कुछ तेल भेज सकता है। यद्यपि कई खरीदार रूसी कच्चे तेल से दूर हैं, विशेष रूप से पूर्व यूरोपीय खरीदार, लेकिन एशियाई उपभोक्ता रियायती दरों पर तेल लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चीन के रिफाइनर सस्ते रूसी तेल खरीद रहे हैं और भारत के प्रोसेसरों ने भी कुछ मात्रा में वृद्धि की है। जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, दोनों पक्षों में रूसी ऊर्जा आपूर्ति को हथियार के रूप में उपयोग करने की इच्छा बढ़ रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के केंद्रीय बैंक को आदेश दिया कि यूरोपीय ग्राहकों को रूसी नेचुरल गैस के लिए रूबल में भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए, जिससे गैस की कीमतों में तेजी आई। जवाब में, जर्मनी और इटली ने कहा कि गैस के लिए रूबल में भुगतान लेने का प्रयास अनुबंधों का उल्लंघन होगा। कच्चे तेल की कीमतें 7800-9000 के व्यापक दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जबकि नेचुरल कीमतें अगले सप्ताह पहले की अपेक्षा कम तापमान और अधिक हीटिंग मांग के पूर्वानुमानों के कारण 370-440 के दायरे में कारोबार करना जारी रख सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वादा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस साल यूरोप को पहले की तुलना में कम से कम 15 बिलियन क्यूबिक मीटर अधिक एलएनजी वितरित करेगा।



## बेस मेटल

मिले-जुले फंडामेंटल के कारण बेस मेटल की कीमतें उठापटक के साथ कारोबार कर सकती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष, रूस पर प्रतिबंध और कम वैश्विक भंडार के कारण आपूर्ति में रुकावट के कारण कीमतों को मदद मिल सकती है। मजबूत डॉलर, चीन के कई शहरों में कोविड-19 के प्रकोप और अचल संपत्ति क्षेत्र में नकदी के संकट के कारण बेस मेटल की मांग कम को सकती है। मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और उच्च मुद्रास्फीति के कारण बाजार में उम्मीद बढ़ी है कि अमेरिकी फेड ब्याज दरों में अधिक वृद्धि करेगा। कारोबारियों को भी उम्मीद है कि चीन के बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन और मौद्रिक सहजता से औद्योगिक धातुओं की मांग और आयात में वृद्धि होगी। तांबे की कीमतें 780-850 के दायरे में कारोबार कर सकती है। तांजुग समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, चीन की जिजिन माइनिंग की सर्बियाई शाखा ने अपने तांबा स्मेल्टर में तीन महीने के लिए उत्पादन बंद करने की योजना बनाई है। जिंक की कीमतें 320 के स्तर पर सपोर्ट के साथ 350 तक बढ़ सकती है। लेड की कीमतें 180-188 के दायरे में कारोबार कर सकती है। रूसी संकट और ऊर्जा की अधिक लागत के कारण यूरोपीय स्मेल्टर व्यवधानों के बढ़ते जोखिमों के कारण 2022 में रिफाइंड जिंक की भारी कमी के अनुमान से जिंक की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। निकल की कीमतें 2200-2750 के दायरे में कारोबार कर सकती है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के मद्देनजर आपूर्ति को लेकर चिंता, और संभावित शॉर्ट-कवरींग के कारण कीमतों को मदद मिलती रह सकती है। मार्जिन कॉल से बचने के लिए तिसंगशान के बैंकों के साथ एक सौदा करने के बावजूद, बाजार में अभी भी इसकी एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन है। एल्युमिनियम की कीमतें तेजी के रूझान के साथ 280-300 के दायरे में कारोबार कर सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि रूस ऑस्ट्रेलियाई एल्युमिना आपूर्ति पर प्रतिबंध के बाद अपने विशाल पड़ोसी देशों से आपूर्ति शुरू करने पर बातचीत कर सकता है, लेकिन चीन के एल्युमिनियम स्मेल्टरों को सभी फीडस्टॉक की आवश्यकता है।

## एनसीडीईएक्स पर रिफाइंड अरंडी तेल (कैस्टर ऑयल) वायदा


एनसीडीईएक्स ने 21 मार्च, 2022 को रिफाइंड कैस्टर तेल के वायदा कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग शुरू की है। प्रारंभ में अप्रैल से जुलाई 2022 में एक्सपायर होने वाले चार मासिक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड के लिए उपलब्ध हैं। एक्सचेंज का अरंडी (कैस्टरसीड) में पहले से ही एक सफल कॉन्ट्रैक्ट है और रिफाइंड अरंडी तेल का कारोबार शुरू होने से एनसीडीईएक्स के वायदा सेगमेंट में कैस्टर कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा मिलेगा।

अरंडी का तेल अरंडी बीज से प्राप्त प्राथमिक उत्पाद है। अरंडी के तेल और इसके डेरिवेटिव में साबुन, मोबिल, हाइड्रोलिक और ब्रेक तरल पदार्थ, पेंट, डाई, कोटिंग्स, स्याही, ठंड प्रतिरोधी प्लास्टिक, मोम और पॉलिश, नायलॉन, फार्मास्यूटिकल और इत्र के निर्माण में व्यापक अनुप्रयोग हैं। इसका उपयोग बायो-डीजल बनाने में भी किया जाता है।

टिकर प्रतीक	कैस्टरऑयल
ट्रेडिंग की इकाई	2 मीट्रिक टन
डिलीवरी इकाई	लागू नहीं
अधिकतम ऑर्डर	200 मीट्रिक टन
आधार मूल्य	रु. प्रति 10 किग्रा
टिक साइज	50 पैसे
डिलीवरी केन्द्र	लागू नहीं/डिलीवरी स्पेशिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति पर, पोजिशन का नकद निपटान होगा और वहाँ कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी।
न्यूनतम प्रारंभिक मार्जिन	10%
दैनिक मूल्य सीमा	प्रतिदिन कीमतों को दायरा (+/-) 4% है। एक बार 4% की सीमा तक पहुँच जाने पर, फिर 15 मिनट की अवधि के बाद दायरे को 2% और बढ़ा दिया जाएगा। इस 15 मिनट की अवधि के दौरान 4% दायरे के भीतर ट्रेड की अनुमति होगी। दायरे को बढ़ाए जाने के बाद, पूरे समय में 6% की कुल दायरे भीतर ट्रेडों की अनुमति दी जाएगी
पोजिशन सीमा	सदस्य के लिए : 35,000 मीट्रिक टन या बाजार में ओपेन इंटररेस्ट का 15%, जो भी अधिक हो। ग्राहकों के लिए : 3,500 मीट्रिक टन

## मांग और आपूर्ति की स्थिति

- मौजूदा 2021-22 सीजन के दौरान भारत में अरंडी उत्पादन 17.95 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 में 17.89 लाख टन था।
- भारत विश्व स्तर पर लगभग 90 प्रतिशत अरंडी तेल का निर्यात करता है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा अरंडी का तेल आयातक है, जो भारत से लगभग 70% आयात करता है।
- भारत में अरंडी का तेल निर्यात 2018 में 547,000 टन से बढ़कर 2021 में 685,000 टन से अधिक हो गया है जो विश्व आपूर्ति का लगभग 90% है।
- एसईए के अनुसार इस साल जनवरी के दौरान भारत से अरंडी तेल का निर्यात 44397 टन हुआ है, जबकि जनवरी 2021 में 42073 टन हुआ था।



स्रोत: एसईए

अरंडी उत्पादों में लगभग एकाधिकार होने के बावजूद, भारतीय उत्पादकों और साथ ही निर्यातकों को अक्सर विभिन्न आंतरिक और बाहरी जोखिमों के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जिससे कमोडिटी में कीमतों को लेकर जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए रिफाइंड अरंडी तेल वायदा कॉन्ट्रैक्ट के शुरू होने से भारतीय उत्पादकों और निर्यातकों को अपने जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी, और अन्य देशों में ई-आयातकों को भी अपने जोखिमों को हेज करने के लिए एनसीडीईएक्स का उपयोग करने में भी मदद मिलेगी।



## एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेवा और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉन्सल्टेंट या सलाह की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।